

परिशिष्ट सारणी VI.2: एनबीएफसी-यूएल का समेकित तुलन पत्र

(₹ करोड़)

मद	मार्च 2023 के अंत में	मार्च 2024 के अंत में	मार्च 2025 के अंत में	सितंबर 2025 के अंत में	प्रतिशत अंतर 2024-25
1	2	3	4	5	6
1. शेयर पूंजी	7,344	9,034	11,364	12,033	25.8
2. आरक्षित निधि और अधिशेष	1,91,938	2,45,188	3,20,180	3,74,484	30.6
3. जनता की जमाराशियां	64,797	83,102	1,00,653	1,10,124	21.1
4. कुल उधार (ए+बी)	7,48,506	9,53,405	12,66,934	14,06,062	32.9
ए. जमानती उधार	6,40,877	8,17,360	10,98,280	12,27,822	34.4
ए.1. डिबेंचर	2,13,684	2,56,627	3,27,297	4,01,149	27.5
ए.2. बैंकों से उधार	3,18,979	4,08,471	5,25,861	5,74,256	28.7
ए.3. वित्तीय संस्थाओं से उधार	30,005	44,041	54,128	53,045	22.9
ए.4. अर्जित ब्याज	6,165	8,229	8,014	7,706	-2.6
ए.5. अन्य	72,044	99,992	1,82,980	1,91,667	83.0
बी. गैर-जमानती उधार	1,07,630	1,36,045	1,68,654	1,78,240	24.0
बी.1. डिबेंचर	11,731	14,817	19,510	19,607	31.7
बी.2. बैंकों से उधार	6,218	4,602	6,428	5,553	39.7
बी.3. वित्तीय संस्थाओं से उधार	-	-	2,405	2,287	-
बी.4. रिश्तेदारों से उधार	615	700	523	917	-25.2
बी.5. अंतर-कॉरपोरेट उधार	21,059	25,589	31,420	30,989	22.8
बी.6. वाणिज्यिक पत्र	39,550	54,146	61,305	71,165	13.2
बी.7. अर्जित ब्याज	1,889	2,569	1,412	1,036	-45.0
बी.8. अन्य	26,568	33,622	45,651	46,686	35.8
5. वर्तमान देयताएं और प्रावधान	58,463	68,793	82,859	96,157	20.4
कुल देयताएं/ कुल आस्ति	10,71,050	13,59,521	17,81,991	19,98,860	31.1
1. ऋण और अग्रिम	9,18,302	11,85,621	15,16,011	17,16,579	27.9
1.1. जमानती	6,91,720	8,95,934	11,47,665	13,01,275	28.1
1.2. गैर-जमानती	2,26,582	2,89,688	3,68,346	4,15,304	27.2
2. निवेश	75,479	95,189	1,35,253	1,53,493	42.1
2.1. सरकारी प्रतिभूतियां	37,465	50,634	57,222	62,993	13.0
2.2. इक्विटी शेयर	14,195	21,454	31,741	39,631	47.9
2.3. अधिमानी शेयर	114	35	153	464	342.1
2.4. डिबेंचर और बॉण्ड	1,608	1,634	11,735	11,947	618.4
2.5. म्यूचुअल फंड के यूनिट	10,567	7,116	8,420	8,057	18.3
2.6. वाणिज्यिक पत्र	691	1,005	1,520	2,197	51.3
2.7. अन्य निवेश	10,838	13,312	24,462	28,205	83.8
3. नकद और बैंक जमा शेष	46,946	43,228	80,973	65,829	87.3
जिनमें से:					
3.1. हाथ में नकदी	673	853	2,219	2,225	160.3
3.2. बैंकों के पास जमाराशियां	44,046	38,463	76,460	61,625	98.8
4. अन्य	30,323	35,483	49,754	62,959	40.2
मेमो मद					
1. पूंजी बाजार एक्सपोजर (सीएमई)	41,880	65,650	77,271	90,719	17.7
जिनमें से: इक्विटी शेयर	4,105	9,929	24,325	25,494	145.0
2. कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में सीएमई	3.9	4.8	4.3	4.5	
3. लीवरेज अनुपात	4.8	4.7	4.6	4.5	

-: लागू नहीं अथवा उपलब्ध नहीं अथवा शून्य।

टिप्पणियाँ: 1. डेटा अनंतिम है। प्रतिशत के आंकड़े पूर्णांकित हैं।

2. अपर और मिडिल लेयर में आने वाले एनबीएफसी (सीआईसी, एचएफसी और एसपीडी को छोड़कर) के लिए डेटा।

3. यह डेटा आरबीआई के साथ पंजीकृत एनबीएफसी की सूची के अनुसार लेयर्स आधार पर एनबीएफसी के वर्गीकरण पर आधारित है। मार्च-2025 तक एनबीएफसी की लेयर-वाइज पहचान 31 दिसंबर 2024 तक उनकी स्थिति पर आधारित है। जनवरी और सितंबर 2025 के बीच जहां एनबीएफसी-लेयर में बदलाव हुआ है, उसे छोड़कर सितंबर-2025 के लिए, उसी स्थिति पर विचार किया गया है।

स्रोत: पर्यवेक्षी विवरणियां, आरबीआई।